

Roll No.-----

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--

प्रश्नपुस्तिका क्रमांक

Question Booklet No.

प्रश्नपुस्तिका सिरीज

Question Booklet Series

A

## L.L.B (Fifth Semester) Examination, 2021

**LLB508**

### INVESTMENT LAW

Time : 1:30 Hours

Maximum Marks-100

जब तक कहा न जाय, इस प्रश्नपुस्तिका को न खोलें

- निर्देश :-**
- परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक, विषय एवं प्रश्नपुस्तिका की सिरीज का विवरण यथास्थान सही- सही भरें, अन्यथा मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की विसंगति की दशा में उसकी जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी।
  - इस प्रश्नपुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल 75 प्रश्नों के उत्तर परीक्षार्थियों द्वारा दिये जाने हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये हैं। इन चारों में से केवल एक ही उत्तर सही है। जिस उत्तर को आप सही या सबसे उचित समझते हैं, अपने उत्तर पत्रक (**O.M.R. ANSWER SHEET**) में उसके अक्षर वाले वृत्त को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से पूरा भर दें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित प्रश्नों से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं तो उसके द्वारा हल किये गये प्रथमतः यथा निर्दिष्ट प्रश्नोत्तरों का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
  - प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आप के जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
  - सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (**O.M.R. ANSWER SHEET**) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
  - ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (**O.M.R. ANSWER SHEET**) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाय।
  - परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी प्रश्नपुस्तिका बुकलेट एवं ओ०एम०आर० शीट पृथक-पृथक उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें।
  - निगेटिव मार्किंग नहीं है।

**महत्वपूर्ण :-**

प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभौति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्ष निरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।



1. What do you mean by Investment?  
 (A) Investment is an asset acquired or invested in to build wealth and save money from the hard earned income or appreciation.  
 (B) Investment is primarily made to obtain an additional source of income or gain profit from the investment over a specific period of time  
 (C) A and B both are correct  
 (D) None of these
2. To regulate scam in India capital market, which of the following body has regulatory power?  
 (A) SEBI  
 (B) RBI  
 (C) SBI  
 (D) None of these
3. Investment refers to what are done with his/her-  
 (A) Saving  
 (B) Expenses  
 (C) Needs  
 (D) None of these
4. Maximum number of members required while you are registering a public company is  
 (A) 10  
 (B) 20  
 (C) 50  
 (D) Unlimited
5. The maximum number of members required while you are registering a public company is -  
 (A) 02  
 (B) 06  
 (C) 07  
 (D) 10
6. Power of securities and exchange board to regulate issue and transfer of securities is dealt under which of the following section of Companies Act 2013?  
 (A) Section 24  
 (B) Section 25  
 (C) Section 27  
 (D) Section 28
7. According to section 29 demat (Dematerialized form) is compulsory for which of the following  
 (A) Companies going for public offer.  
 (B) Companies going private placement  
 (C) Prescribed unlisted companies  
 (D) A and C Both
8. Global depository receipt is mentioned in which of the following sections of companies Act 2013  
 (A) Section 38  
 (B) Section 39  
 (C) Section 41  
 (D) Section 42
1. निवेश से आप क्या समझते हो ?  
 (A) निवेश वह परिसम्पत्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को बचाकर एवं निवेशित कर पैसा बनाता है।  
 (B) निवेश प्राथमिक रूप से अतिरिक्त आय या लाभ निवेशित धनराशि से एक निश्चित समय मे प्राप्त करता है  
 (C) A एवं B दोनों  
 (D) इनमें से कोई नहीं।
2. घोटाले को नियंत्रित करने के लिए भारतीय पूँजी बाजार में कौन सी नियामक शक्ति है ?  
 (A) सेबी  
 (B) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया  
 (C) स्टेट बैंक आफ इण्डिया  
 (D) इनमें से कोई नहीं
3. निवेश से आशय है एक व्यक्ति के द्वारा की गई-  
 (A) बचत  
 (B) खर्च  
 (C) आवश्यकता  
 (D) इनमें से कोई नहीं
4. सार्वजनिक कम्पनी को पंजीकृत कराने के लिये अधिक से अधिक कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी ?  
 (A) 10  
 (B) 20  
 (C) 50  
 (D) कोई सीमा नहीं
5. सार्वजनिक कम्पनी को पंजीकृत किये जाने हेतु कम से कम ..... सदस्यों की आवश्यकता होती है।  
 (A) 02  
 (B) 06  
 (C) 07  
 (D) 10
6. प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड किस धारा के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिभूतियों को जारी एवं अन्तरण करता है? कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत  
 (A) धारा -24  
 (B) धारा-25  
 (C) धारा-27  
 (D) धारा-28
7. धारा 29 के अन्तर्गत डीमैट (डीमेटरलाइज फार्म) आवश्यक है निम्न मे से किसको-  
 (A) कम्पनी जो सार्वजनिक प्रस्ताव ला रही हो  
 (B) कम्पनी जो निजी भर्ती कर रही हो  
 (C) निर्धारित गैर सूचीबद्ध कम्पनी  
 (D) A एवं C दोनों
8. कम्पनीज अधिनियम 2013 किस धारा में ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट के बारे में बताया गया है ?  
 (A) धारा 38  
 (B) धारा 39  
 (C) धारा 41  
 (D) धारा 42

9. Which of the following is the new category of company introduced in companies Act 2013?  
 (A) Public Private partnership  
 (B) Two-person company  
 (C) Limited liability partnership  
 (D) One person company
10. Who control the capital market in India ?  
 (A) SEBI  
 (B) RBI  
 (C) I.R.D.A  
 (D) NABARD
11. When was 'Nifty' established  
 (A) 1996  
 (B) 1952  
 (C) 1965  
 (D) None of these
12. The money market where debt and stocks are traded and maturity period is more than a year is classified as  
 (A) Shorter term markets  
 (B) Capital market  
 (C) Counter market  
 (D) Long term markets
13. The type of market in which securities with less than one year maturity, is classified as-  
 (A) Money market  
 (B) Capital market  
 (C) Transaction market  
 (D) Global market
14. When was SEBI- established ?  
 (A) 12<sup>th</sup> April 1988  
 (B) 12<sup>th</sup> march 1982  
 (C) 12<sup>th</sup> July 1992  
 (D) 12<sup>th</sup> December 1974
15. When did SEBIAct 1992 come in to force ?  
 (A) 01 April 1966  
 (B) 01 March 1967  
 (C) 01 May 1960  
 (D) 30 January 1992
16. Which section of Sebi Act 1992 deals with the establishment and in corporation of Board ?  
 (A) Section 3 of the SEBI Act 1992  
 (B) Section 9 of the SEBI Act 1992  
 (C) Section 4 of the SEBI Act 1992  
 (D) Section 2 of the SEBI Act 1992
17. Which section of SEBI Act 1992 deal with the power to control Government to issue direction ?  
 (A) Section 16 of the SEBI Act 1992  
 (B) Section 14 of the SEBI Act 1992  
 (C) Section 13 of the SEBI Act 1992  
 (D) Section 18 of the SEBI Act 1992
9. निम्नलिखित मे से कौन सी नई कम्पनी ,कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है ?  
 (A) लोक एवं निजी साझेदारी  
 (B) दो व्यक्ति कम्पनी  
 (C) सीमित देयता भागीदारी  
 (D) एक व्यक्ति कम्पनी
10. पूँजी बाजार को नियंत्रित कौन करता है ।  
 (A) सेबी  
 (B) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया  
 (C) आई.आर.डी.ए.  
 (D) नाबार्ड
11. निपटी कब बना था ?  
 (A) 1996  
 (B) 1952  
 (C) 1965  
 (D) इनमें से कोई नहीं।
12. बाजार जहाँ ऋण एवं शेरयों का व्यापार होता है जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है को वर्गीकृत किया गया है  
 (A) लघु अवधि बाजार  
 (B) पूँजी बाजार  
 (C) काउंटर बाजार  
 (D) लम्बी – अवधि बाजार
13. बाजार का वह प्रकार जहाँ प्रतिभूतियों 1 वर्ष से कम समय मे परिवर्त्य हो जाती है वर्गीकृत है—  
 (A) पैसा बाजार।  
 (B) पूँजी बाजार।  
 (C) संक्रमण बाजार।  
 (D) वैश्विक बाजार।
14. सेबी की स्थापना कब हुई थी ?  
 (A) 12 अप्रैल 1988  
 (B) 12 मार्च 1982  
 (C) 12 जुलाई 1992  
 (D) 12 दिसम्बर 1974
15. सेबी अधिनियम 1992 कब लागू हुआ ?  
 (A) 01 अप्रैल 1966  
 (B) 01 मार्च 1967  
 (C) 01 मई 1960  
 (D) 30 जनवरी 1992
16. सेबी अधिनियम 1992 की कौन सी धारा इंस्टेबिलिसमेन्ट एण्ड इनकारपोरेशन बोर्ड क बारे में बताती है ?  
 (A) धारा 3 सेबी अधिनियम 1992  
 (B) धारा 9 सेबी अधिनियम 1992  
 (C) धारा 4 सेबी अधिनियम 1992  
 (D) धारा 2 सेबी अधिनियम 1992
17. सेबी अधिनियम 1992 की कौन सी धारा केन्द्र सरकार को निदेश जारी करने की शक्ति देती है ?  
 (A) धारा 16 सेबी अधिनियम 1992  
 (B) धारा 14 सेबी अधिनियम 1992  
 (C) धारा 13 सेबी अधिनियम 1992  
 (D) धारा 18 सेबी अधिनियम 1992

18. Section 25 of the SEBI Act 1992 deals with -----?  
 (A) Bar of Jurisdiction  
 (B) Exemption from tax on wealth and Income.  
 (C) Power to make regulations.  
 (D) Appeal and revision.
19. Right to legal representation is provide in section ..... of the SEBI Act 1992  
 (A) Section 15A of the SEBI Act 1992  
 (B) Section 15B of the SEBI Act 1992  
 (C) Sectio 15V of the SEBI Act 1992  
 (D) Section 15K of the SEBI Act 1992
20. Section 16 of the Sebi Act 1992 provides---?  
 (A) Power of central Government to supersede the Board  
 (B) Resignation and removal  
 (C) Returns and report  
 (D) Saving
21. A 'debenture' is a type of-  
 (A) Bond or other debt instrument that is unsecured by collateral  
 (B) Since debentures have no collateral backing they must rely on credit worthiness and reputation of the issuer for support.  
 (C) A and B both  
 (D) None of these
22. What are the types of stock market trading in India ?  
 (A) Intraday Trading  
 (B) Delivery Trading  
 (C) Buy today and sell tomorrow  
 (D) All of the above
23. Types of Shares available to the investors are-  
 (A) Ordinary Shares  
 (B) Redeemable Shares  
 (C) Preference Shares  
 (D) All of the above
24. Give the correct answer about Stock Exchange  
 (A) It was the Bombay Stock Exchange that was first established in 1875.  
 (B) Bombay Stock Exchange commonly known as B.S.E  
 (C) B.S.E is the oldest one Stock-Exchange in Asia.  
 (D) All above are correct.
25. Where is the Headquarter of Bombay stock exchange ? Give correct Answer-  
 (A) Delhi  
 (B) Mumbai  
 (C) Madras  
 (D) Bangalore
18. धारा 25 सेबी अधिनियम 1992 वर्णन करता है—— ?  
 (A) क्षेत्राधिकार की बाधा।  
 (B) सम्पत्ति एवं आयकर में छूट।  
 (C) विनियम बनाने की शक्ति।  
 (D) अपील एवं रिवीजन।
19. कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार सेबी अधिनियम 1992 की धारा ..... में दिया गया है।  
 (A) धारा 15A सेबी अधिनियम 1992  
 (B) धारा 15B सेबी अधिनियम 1992  
 (C) धारा 15V सेबी अधिनियम 1992  
 (D) धारा 15K सेबी अधिनियम 1992
20. धारा 16 सेबी अधिनियम 1992..... के बारे में है।  
 (A) केन्द्र सरकार की बोर्ड की शक्ति समाप्त कर उसकी जगह लेती है।  
 (B) त्यागपत्र एवं हटाना।  
 (C) रिटर्न एवं रिपोर्ट।  
 (D) जमा पूँजी।
21. ऋण पत्र एक प्रकार के—  
 (A) संपार्श्विक द्वारा असुरक्षित बांड या अन्य ऋण साधन।  
 (B) जब कि ऋणपत्र संपार्श्विक (अनुप्रासांगिक) सर्पोंट के साथ नहीं होते हैं इसलिये उनकी विश्वसनीयता जारी करने वाले पर होती है।  
 (C) 'A' एवं 'B' दोनों।  
 (D) इनमें से कोई नहीं।
22. भारत में स्टॉक मार्केट में क्या व्यापार के प्रकार है ?  
 (A) एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना  
 (B) निवेशक द्वारा स्टॉक को होल्ड करना एवं डीमेट खाते में ट्रांसफर करना।  
 (C) आज खरीदना एवं कल बेचना।  
 (D) उपरोक्त सभी
23. निवेशकों को अंश के प्रकार जो उपलब्ध हैं—  
 (A) सामान्य अंश  
 (B) प्रतिदेय अंश  
 (C) प्राथमिकता अंश  
 (D) उपरोक्त सभी
24. शेयर मार्केट के बारे में सही उत्तर दीजिए ।  
 (A) पहला शेयर बाजार बांम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित हुआ था।  
 (B) बांम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सामान्यतया बी.एस.ई. नाम से जाना जाता है।  
 (C) बी.एस.ई. एशिया में सबसे पुराने शेयर बाजार में जाना जाता है।  
 (D) उपरोक्त सभी।
25. बांम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है ?  
 (A) दिल्ली  
 (B) मुम्बई  
 (C) मद्रास  
 (D) बैंगलौर

26. How many Indian Companies are included in the SENSEX.  
 (A) 50  
 (B) 70  
 (C) 30  
 (D) 40
27. How many Indian companies are included in the Nifty 50 ?  
 (A) 100  
 (B) 80  
 (C) 50  
 (D) 60
28. What is an I.P.O.?  
 (A) It is an public offering in which Share of company are sold.  
 (B) It is an private offering in which share of company are sold.  
 (C) It is public offering in which share are sold to institutional and retail Investors.  
 (D) A and C are correct.
29. What are "Blue chip" Companies?  
 (A) A company whose share does not provide profit ?  
 (B) A company whose share some time provide profit.  
 (C) A company whose share always provide profit.  
 (D) None of these
30. What is the full form of SENSEX ?  
 (A) Stock Exchange  
 (B) Stock Exchange sensitive Index  
 (C) Security Exchange National Index.  
 (D) None of these
31. Who does the registration of Brokers and Sub-Brokers?  
 (A) NIFTY  
 (B) SEBI  
 (C) A and B both  
 (D) None of these
32. How many companies are listed in B.S.E ?  
 (A) 1000  
 (B) 4000  
 (C) 5000  
 (D) 3000
33. What is N.P.A ?  
 (A) Never performing Assets  
 (B) Non- performing Assets  
 (C) A & B both  
 (D) None of these
34. How many companies are listed on N.S.E.?  
 (A) 1000  
 (B) 1500  
 (C) More than 1600  
 (D) 2000 and more
26. सेन्सेक्स में कितनी भारतीय कम्पनियाँ हैं ?  
 (A) 50  
 (B) 70  
 (C) 30  
 (D) 40
27. निफटी फिफटी में कितनी भारतीय कम्पनियाँ हैं ?  
 (A) 100  
 (B) 80  
 (C) 50  
 (D) 60
28. आई.पी.ओ. क्या है ?  
 (A) कम्पनी के अंशों की बिक्री पब्लिक को की जाती है।  
 (B) कम्पनी के अंशों की बिक्री कुछ लोगों को निजी रूप से की जाती है।  
 (C) कम्पनी के अंशों की बिक्री सार्वजनिक एवं संस्थाओं को की जाती है।  
 (D) A एवं C सही है।
29. 'ब्लू शेयर' कम्पनी क्या होती है ?  
 (A) वह कम्पनी जिसके शेयर लाभ नहीं देते हैं।  
 (B) वह कम्पनी जिसके शेयर कभी-कभी लाभ देते हैं।  
 (C) वह कम्पनी जिसके शेयर हमेशा लाभ देते हैं।  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
30. सेन्सेक्स का पूरा नाम क्या है ?  
 (A) स्टॉक एक्सचेन्ज  
 (B) स्टॉक एक्सचेन्ज सेन्सिटिव इंडेक्स  
 (C) सिक्यूरिटी एक्सचेंज नेशनल इंडेक्स  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
31. 'दलाल' एवं उपदलाल का पंजीयन कौन करता है ?  
 (A) निफटी  
 (B) सेबी  
 (C) A एवं B दोनों  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
32. बी.एस.आई. में कितनी कम्पनियाँ लिस्टड हैं।  
 (A) 1000  
 (B) 4000  
 (C) 5000  
 (D) 3000
33. एन.पी.ए. क्या है ?  
 (A) कभी भी अच्छा न करने वाली , अनर्जक आस्तियाँ।  
 (B) अच्छा न करने वाली, अनर्जक, आस्तिया।  
 (C) A एवं B दोनों  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
34. एन.एस.ई. के अन्तर्गत कितनी कम्पनियाँ पंजीकृत हैं।  
 (A) 1000  
 (B) 1500  
 (C) 1600 से अधिक  
 (D) 2000 से अधिक

35. Which section of the SEBI Act 1992 deals with term of the office and condition of service of chairman and members of the board.  
 (A) Section 7 of the SEBI Act 1992  
 (B) Section 4 of the SEBI Act 1992  
 (C) Section 5 of the SEBI Act 1992  
 (D) None of these
36. Section 12 of the Sebi Act deals with-----  
 (A) Registration of Stock brokers sub-brokers , share transfer agent etc.  
 (B) Function of Board.  
 (C) Investigation.  
 (D) officer and the employees of the Board.
37. Mutual funds in India are registered with --- as  
 (A) SUUTI, public companies  
 (B) GOL, public companies  
 (C) SEVI, Trust.  
 (D) R.B.I
38. The portfolio investment by foreign institutional investors is called?  
 (A) F.D.I  
 (B) F.I.I  
 (C) Balance of payment  
 (D) S.D.R
39. Companies raise funds for the purpose of :  
 (A) Financial new project  
 (B) Expansion of existing units  
 (C) Modernization& Diversification of existing unites.  
 (D) All of the above
40. A collection of assets in which an investor invests is known as  
 (A) Block of assets  
 (B) portfolio  
 (C) Securities  
 (D) All of the above
41. If the numbers of shares allotted to an applicable is less than excess application money will be-  
 (A) Refunded  
 (B) Adjusted with the collmoney  
 (C) Either of the above  
 (D) None of these
42. N.S.E. stands for-  
 (A) National security Exchange  
 (B) National Stock exchange  
 (C) National secure  
 (D) Notification of security expenses
35. सेबी अधिनियम 1992 की कौन सी धारा मे चेयरमैन एवं सदस्यों के कार्यालय एवं सेवा शर्तों को बताया गया है ?  
 (A) धारा 7 सेबी अधिनियम 1992  
 (B) धारा 4 सेबी अधिनियम 1992  
 (C) धारा 5 सेबी अधिनियम 1992  
 (D) उपरोक्त मे से कोई नहीं
36. सेबी अधिनियम की धारा 12 मे प्रावधान है-----  
 (A) दलाल एवं उपदलाल का पंजीयन अंश अन्तरण इत्यादि।  
 (B) बोर्ड के कार्य।  
 (C) विवेचना।  
 (D) बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी।
37. भारत मे म्यूचलफण्ड पंजीकृत है—  
 (A) एस.यू.यू.टी.आई. सार्वजनिक कम्पनीज  
 (B) गोल, सार्वजनिक कम्पनी  
 (C) सेवी, ट्रस्ट  
 (D) आर.बी.आई.
38. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश को जाना जाता है।  
 (A) एफ.डी.आई.  
 (B) एफ.आई.आई.  
 (C) बैलेंस आफ ऐमेण्ट  
 (D) एस.डी.आर.
39. कम्पनियां पूँजी जिस उद्देश्य के लिए एकत्रित करती है वह है—  
 (A) नये प्रोजेक्ट के लिए धन  
 (B) स्थापित यूनिट को वृद्धि किये जाने हेतु।  
 (C) स्थापित यूनिट के आधुनीकरण एवं अन्य विस्तार हेतु।  
 (D) उपरोक्त सभी।
40. निवेशक द्वारा निवेशित राशि को एक जगह एकत्रित करने को ----- कहा जाता है।  
 (A) एसेस्ट को ब्लाक करना।  
 (B) पोर्टफोलियो।  
 (C) सिक्यूरिटीज।  
 (D) उपरोक्त सभी।
41. यदि किसी प्रार्थी को आवेदन पत्र से कम अंश जारी किये जाते हो तब अतिरिक्त आवेदन राशि— किया जायेगा ।  
 (A) वापस  
 (B) कालमनी के साथ समायोजन किया जायेगा।  
 (C) उपरोक्त मे से कोई एक।  
 (D) उपरोक्त मे से कोई नहीं।
42. एन.एस.ई. जाना जाता है।  
 (A) नेशनल सिक्यूरिटी एक्सचेंज  
 (B) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज  
 (C) नेशनल सीक्यूर  
 (D) नोटीफिकेशन ऑफ सिक्यूरिटी एक्सचेंज।

43. NSDL stands for-
- Nominal securities depository Limited
  - National savings Depository Limited
  - National savings depository Limited
  - Nominal savings depository limited
44. Convertible debentures can be Converted into-----
- Shares
  - Bonds
  - Debentures
  - None of the above
45. An extra price paid to the broker while making transaction in stock Exchange is called -----
- Brokerage
  - Commission
  - Broker fee
  - Securites Transaction charges
46. A public company must have minimum paid up capital of Rs-
- Rs- 1 Lakh
  - Rs- 5 Lakh
  - Rs- 50 Lakh
  - Rs- 1 crore
47. The term "I.P.O" stands for ---
- Investment public organization
  - India post office
  - Intitial Portfolio orientation
  - Intitial public offering
48. Stock markets remain closed on -
- Only sunday
  - Only Saturday
  - Sunday or Saturday
  - None of these
49. Which of the following is not the principle of insurance ?
- Utmost good faith.
  - Principle of Contribution.
  - Maximum of profit.
  - Causa proxima
50. Insurance is legislated by -
- Insurance company
  - State Government
  - Central Government
  - None of these
51. Which was the first Act to regulate life Insurance industry in India ?
- Insurance Act 1938
  - Life Insurance co. Act 1912
  - I.R.D.A Act 1999
  - LIC Act, 1956
43. एन.एस.डी.एल. को जाना जाता है-
- नोमिनल सीक्यूरिटीज डिपोजटरी लिमिटेड
  - नेशनल सीक्यूरिटीज डिपोजटरी लिमिटेड
  - नेशनल सेविंग डिपोजटरी लिमिटेड
  - नोमिनल सेविंग डिपोजटरी लिमिटेड
44. कन्वर्टीबल डिवेन्चर को कन्वर्ट ..... में किया जा सकता है।
- शेयर
  - बोन्ड्स
  - डिवेन्चर्स
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
45. कुछ अतिरिक्त राशि सौदा करते समय दलाल को देने के लिए कहा जाता है-
- दलाली
  - कमीशन
  - दलाल की फीस
  - प्रतिभूति लेन देन शुल्क
46. एक सार्वजनिक कम्पनी में कम से कम .....प्रदत्त पूँजी होनी चाहिये।
- ₹0 1 लाख
  - ₹0 5 लाख
  - ₹0 50 लाख
  - ₹0 1 करोड़
47. शब्द आई.पी.ओ' जाना जाता है-
- इन्वेस्टमेन्ट पब्लिक आरगनाइजेशन
  - इण्डियन पोस्ट आफिस
  - इनीशियल पोर्टफोलियो ओरिवेन्टेशन
  - इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग
48. पूँजी बाजार बन्द रहता है।
- केवल रविवार
  - केवल शनिवार
  - शनिवार एवं रविवार
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
49. निम्न में से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है ?
- अच्छी भावना
  - योगदान का सिद्धांत
  - लाभ का अधिकतमकरण
  - कासा प्रोविजमा
50. बीमा नियंत्रित किया जाता है-
- बीमा कम्पनी द्वारा
  - राज्य सरकार द्वारा
  - केन्द्र सरकार द्वारा
  - उपरोक्त में से कोई नहीं
51. निम्न में से कौन सा प्रथम अधिनियम जीवन बीमा उद्योग को विनियमित किये जाने के लिये लाया गया था।
- बीमा अधिनियम 1938
  - जीवन बीमा कम्पनी अधिनियम 1912
  - आई.आर.डी.ए. अधिनियम 1999
  - जीवन बीमा कारपोरेशन 1956

52. For the purpose of calculating the amount made with the R.B.I by the insurer in respect of his life insurance shall be deemed to be ..... invested in Government securities  
 (A) Return  
 (B) Capital  
 (C) Assets  
 (D) Stock
53. Which of the following types companies/ organizations issue ULIP ?  
 (A) Insurance companies  
 (B) Banks  
 (C) NABARD  
 (D) R.B.I
54. Which of the following is the only public sector company in the field of life insurance ?  
 (A) General insurance company  
 (B) New India insurance company  
 (C) Oriental insurance company  
 (D) Life insurance corporation of India
55. Kind of the fix deposit available to a depositer are.....  
 (A) Fixed deposit  
 (B) Recurring deposit  
 (C) Flexi fixed deposit  
 (D) All of the above
56. Interest earned on fixed deposit is ---  
 (A) Fully taxable  
 (B) A and C are correct  
 (C) It is determined as per year tax slab  
 (D) Non - taxable
57. A unit linked insurance plan is a product offered by insurance plan is a product offered by insurance companies that -  
 (A) Unlived a pure, Insurance policy gives investors insurance.  
 (B) and gives investor investment under single integrated plan.  
 (C) A and B both is correct  
 (D) None of these
58. SIDBI stands for --  
 (A) Specialty investment development Bank of India  
 (B) Solar industries development Bank of India  
 (C) Small industries development Bank of India  
 (D) Savings & insurance development Bank of India
52. गणना के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के पास बीमाति द्वारा अपने जीवन बीमा के सन्दर्भ में रखा हुआ धन..... जिसे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित किया गया है कहलाता है  
 (A) रिटर्न  
 (B) पूँजी  
 (C) परिसम्पत्ति  
 (D) पूँजी
53. निम्न में से कौन सी कम्पनियाँ संगठन 'यूलिय' जारी करते हैं  
 (A) बीमा कम्पनियाँ  
 (B) बैंक  
 (C) नाबार्ड  
 (D) आर.बी.आई
54. निम्न में से कौन सी जीवन बीमा के क्षेत्र में सार्वजनिक कम्पनी है ?  
 (A) जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी।  
 (B) च्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी।  
 (C) ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी।  
 (D) भारतीय जीवन बीमा निगम।
55. सावधि जमा के प्रकार जो एक जमावर्ती को उपलब्ध है  
 —  
 (A) सावधि जमा।  
 (B) आवर्ती जमा।  
 (C) फ्लॉक्सी सावधि जमा।  
 (D) उपरोक्त सभी
56. सावधि जमा पर अर्जित ब्याज ..... होता है  
 (A) पूर्णतया कर योग्य  
 (B) यहाँ A और B सही उत्तर है  
 (C) यह आपके कर स्तर से निर्धारित होता है।  
 (D) कर योग्य नहीं होता है।
57. यूनिट लिंक्ड इन्श्योरेन्स योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनीज द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है—  
 (A) शुद्ध बीमा की तरह पालिसी निवेशकों को बीमा उपलब्ध कराती है।  
 (B) निवेशकों को निवेश हेतु एकल एकीकृत योजना उपलब्ध कराती है  
 (C) 'अ' एवं 'ब' दोनों सही है।  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
58. सिडबी को जाना जाता है—  
 (A) स्पेसियलिटी इचेस्टमेंट ड्वलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया।  
 (B) सोलर इन्डस्ट्री ड्वलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया।  
 (C) स्माल इन्डस्ट्री ड्वलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया।  
 (D) सेविंग इन्श्योरेन्स ड्वलपमेन्ट बैंक आफ इण्डिया।

59. National pension system is a pension cum investment scheme launched by.....?  
 (A) R.B.I.  
 (B) SEBI  
 (C) IRDA  
 (D) P.F.R.D.A
60. The process of transformation of physical share, commercial paper or certificate of deposit into form is called as.....?  
 (A) Share transcation  
 (B) Dematerialization  
 (C) Electronification  
 (D) Share digitization
61. Amongst the following financial derivatives, which of the following limits the losses for an Investment ?  
 (A) Forwards  
 (B) Futures  
 (C) Options  
 (D) Possibility of limiting loss is not possible
62. Insurance repository is a company formed and registered under which Act ?  
 (A) Insurance Act 1938.  
 (B) Companies Act 1956  
 (C) IRDA Act 1999  
 (D) Banking and insurance companies Act 1949
63. Investment is the.....?  
 (A) Net additional made to the national capital stock.  
 (B) Person commitment to buy a flat or house.  
 (C) Employment of funds on assets to earn returns.  
 (D) None of these
64. Speculator is a person .....?  
 (A) Who evaluates the performance of the company ?  
 (B) Who use his own funds only  
 (C) Who is willing to take high risk for high returns  
 (D) Who Insiders hear ways and market behaviors
65. Which one of the following is not a money market securities ?  
 (A) Treasury bills  
 (B) National savings certificate  
 (C) Certificate of deposit  
 (D) Commercial papers
59. नेशनल पेंशन प्रणाली है। जिसमे पेशन एवं निवेश जिसे ..... शुरुआत किया है।  
 (A) आर.बी.आई.  
 (B) सेबी  
 (C) आई.आर.डी.ए.  
 (D) पी.एफ.आर.डी.ए.
60. उस प्रक्रिया को जिसमें भौतिक अंशों को, व्यापारिक दस्तावेजों एवं निवेशित जमा दस्तावेजों को नया प्रकार दिया जाता है जिसे कहते हैं—  
 (A) शेयर ट्रूनकेसन  
 (B) डिमेटरलाइजेशन  
 (C) इलेक्ट्रोनीफिकेशन  
 (D) शेयर डिजिटाइजेशन
61. निम्न वित्तीय डेरीवेटिव में से कौन सा निवेशक का नुकसान कम करता है—  
 (A) फार्वडस  
 (B) फ्यूचर्स  
 (C) आप्सेंशन  
 (D) नुकसान कम करना संभव नहीं है।
62. बीमा रिपोजिटरी कम्पनी किस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हुई है ?  
 (A) बीमा अधिनियम 1938  
 (B) कम्पनीज अधिनियम 1956  
 (C) आई.आर.डी.ए. अधिनियम 1999  
 (D) बैंकिंग एवं इन्श्योरेन्स कम्पनीज अधिनियम 1949.
63. निवेश है—  
 (A) राष्ट्र के पूँजी बाजार मे शुद्ध वृद्धि है।  
 (B) व्यक्ति एक घर या फ्लेट खरीदने के लिये।  
 (C) पूँजी को परिसम्पत्तियों मे लगाकर धन प्राप्त करना।  
 (D) उपरोक्त मे से कोई नहीं
64. सट्टेबाज वह व्यक्ति है.....  
 (A) जो कम्पनी की प्रदर्शन क्षमता का आकलन करता है।  
 (B) जो केवल अपनी पूँजी लगाता है।  
 (C) जो अधिक कमाने के लिए अधिक जोखिम स्वेच्छा से लेता है।  
 (D) जो बाजार के व्यवहार को सुनकर काम करता है।
65. निम्न मे से कौन सी पूँजी बाजार की प्रतिभूतियां नहीं है।  
 (A) कोषागार बिल।  
 (B) राष्ट्रीय बचत पत्र।  
 (C) जमा का प्रमाण पत्र।  
 (D) व्यापारिक दस्तावेज।

66. Commercial paper are .....
- Unsecured promissory notes
  - Secured promissory notes
  - Sold at premium
  - Issued for a period of 1 and 2 years
67. ----- are financial
- Bond
  - Machines
  - Stocks
  - A and C
68. An example of a 'derivative securities' is .....
- Common share of general motor
  - a call option of mobile stock
  - Commodity future contract
  - B and C correct
69. Which of the following would be considered a risk free investment?
- Gold
  - Equity in a house
  - High-grade corporate bonds
  - Treasury bills
70. Investment decisions making traditionally consist of two steps ---
- Investment Banking and security analysis
  - Buying and selling
  - Risk and expected return
  - Security analysis and portfolio management.
71. The largest single Institutional and owner of common stock --
- Mutual funds
  - Insurance companies
  - pension funds
  - Commercial Banks
72. Which of the following would not be considered as capital market security ?
- A corporate bond.
  - A common Stock
  - A 6 Month treasury bill
  - A mutual fund Shares
73. The coupon rate is another name for the--
- Market interest rate.
  - current yield.
  - Stated interest rate.
  - Yield to maturity.
66. व्यापारिक दस्तावेज है.....
- प्रतिज्ञात्मक या असुरक्षित प्रोमिजरी नोट्स।
  - सुरक्षित बैंक द्वारा जारी किया गया वचत पत्र
  - प्रीमियम पर बेचे जाते हैं
  - जो एक से दो वर्ष के लिये जारी होते हैं।
67. ..... हैं वित्तीय सम्पत्तियाँ।
- बांड
  - मशीन
  - स्टाक्स
  - A एवं C दोनों
68. वित्तीय समझौता (डेरीवेटिव सीक्योरिटीज) उदाहरण है—
- जनरल मोटर के सामान्य अंश।
  - खरीदार को काल के द्वारा स्टाक खरीदने का अधिकार मिलता है।
  - कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
  - B एवं C सही है।
69. निम्न मे से किसे जोखिम, मुक्त निवेश समझा जाता है।
- सोना।
  - इविटी घर में।
  - उच्च क्षमता के नियमित बांड
  - कोषागार बिल
70. पारंपरिक रूप से निवेश करने के निर्णय को चरण है।
- निवेश बैंकिंग और प्रतिभूतियों में का विश्लेषण
  - बिक्री एवं खरीद
  - जोखिम एवं संभावित वापसी
  - प्रतिभूति विश्लेषण एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन।
71. सामान्य स्टाक का सबसे बड़ा संस्थागत मालिक है।—
- स्यूचल फण्ड
  - बीमा कम्पनीज
  - पेशन फण्ड
  - व्यापारिक बैंक
72. निम्न मे से कौन सी पूँजी बाजार की प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- कार्पोरेट बान्ड।
  - सामान्य स्टाक।
  - 6 माह के कोषागार बिल
  - स्यूचल फण्ड शेयर।
73. कूपन रेट दूसरा नाम है—
- बाजार ब्याज दर।
  - वर्तमान उपज
  - घोषित ब्याज दर।
  - परिपक्वता का मूल्य।

74. Dividend are paid ----  
 (A) Monthly  
 (B) Quarterly  
 (C) Semi-annually  
 (D) Yearly
75. The most popular type of investment company is a --  
 (A) Unit investment trust  
 (B) Mutual fund  
 (C) Close and investment company  
 (D) Real estate investment trust
76. Which of the following generally traded on stock-exchange?  
 (A) Unit investment trusts  
 (B) Close-and investment companies  
 (C) Open and investment companies  
 (D) All trade on stock exchange
77. A group of mutual funds with a common management are known as ---  
 (A) Fund syndicates  
 (B) Fund conglomerates  
 (C) Fund families  
 (D) Fund complexes
78. Net assets value takes into account --  
 (A) Both realized and unrealized capital gains  
 (B) Only realized capital gains  
 (C) Only unrealized capital gains  
 (D) Neither realized nor unrealized capital gains
79. The ..... Is a window through which the investor causes the company.  
 (A) Syndicate offer  
 (B) I.P.O.  
 (C) Prospectus.  
 (D) Shelf rule.
80. Investment bankers operate in the --  
 (A) Primary market.  
 (B) Secondary market  
 (C) Third market  
 (D) Fourth market
81. Which exchange member is assigned to a specific trading post ?  
 (A) Commission broker.  
 (B) Floor trader.  
 (C) A specialist.  
 (D) Dealer
82. If an investor is attempting to buy a stock that is very volatile , it would be best to use -  
 (A) Market order  
 (B) Limit order  
 (C) Stop loss order  
 (D) Contingency order
74. लाभांस का भुगतान –  
 (A) मासिक  
 (B) क्वार्टरली  
 (C) अर्द्धवार्षिक  
 (D) वार्षिक
75. सबसे प्रसिद्ध निवेश कम्पनी है—  
 (A) यूनिट इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट।  
 (B) म्यूचल फण्ड।  
 (C) बंद अंत निवेश कम्पनी।  
 (D) रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट।
76. निम्न मे से कौन सा सामान्य रूप से पूँजी बाजार मे व्यापार होता है ?  
 (A) यूनिट इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट  
 (B) बंद अंत निवेश कम्पनीज  
 (C) खुली और निवेश कम्पनीज  
 (D) स्टाक एक्सचेज मे पूर्ण व्यापार
77. म्यूचल फण्ड के समूह के सामान्य प्रबंधन को कहा जाता है—  
 (A) फण्ड सिण्डीकेट्स।  
 (B) फण्ड कोग्लोमीरेट्स।  
 (C) फण्ड परिवार।  
 (D) फण्ड काम्प्लेक्स।
78. नेट एस्ट वैल्यू खाते मे लेता है—  
 (A) दोनों वास्तविक एवं अवास्तविक पूँजी लाभ।  
 (B) केवल समझा हुआ पूँजी लाभ  
 (C) केवल गैर एहसास या बगैर समझा गया पूँजी लाभ।  
 (D) एहसास किया और न एहसास किया पूँजी लाभ।
79. ..... खिड़की है जिसके माध्यम से निवेशक से कम्पनी को देख समझ सकते है।  
 (A) सिडीकेट्स का प्रस्ताव।  
 (B) आई.पी.ओ।  
 (C) प्रोस्पेक्ट्स।  
 (D) सेल्फ रूल।
80. निवेशक बैंकर कार्य करते है  
 (A) प्राथमिक बाजार में।  
 (B) द्वितीय बाजार मे।  
 (C) तृतीय बाजार में।  
 (D) चतुर्थ बाजार में।
81. एक्सचेज के किस सदस्य को विशिष्ट ट्रेडिंग पोस्ट का दर्जा दिया गया है?  
 (A) कमीशन दलाल  
 (B) फ्लोर ट्रेडर  
 (C) विशेषज्ञ  
 (D) डीलर
82. यदि एक ऐसे स्टाक मे जो कि बहुत अस्थिर है निवेशक खरीदारी करने का प्रयास करता है तब सबसे अच्छा है कि वह प्रयोग करे –  
 (A) बाजार आदेश।  
 (B) सीमित आदेश।  
 (C) हानि-रोक आदेश।  
 (D) आकस्मिक आदेश।

83. All new issues being offered for public sale are registered with --  
 (A) SEBI  
 (B) New issue market.  
 (C) Maloney Act of 1936  
 (D) Securities investor protection Act of 1970
84. Total return is equal to --  
 (A) Capital gain + price charge  
 (B) Yield + income.  
 (C) Capital gain – loss.  
 (D) Yield + Price charge
85. Political stability is the major factor concerning -  
 (A) exchange risk.  
 (B) systematic risk.  
 (C) Unsystematic risk.  
 (D) Country risk.
86. Which of the following is not related to overall market variability?  
 (A) Financial risk.  
 (B) Interest rate risk  
 (C) Purchasing power risk  
 (D) Market risk.
87. High risk investments include -  
 (A) Mutual fund.  
 (B) Equity.  
 (C) Bank deposit.  
 (D) None of these
88. If there is an increase in interest rates than the fixed interest rate of the corporate bond will-  
 (A) Return to the corporation.  
 (B) Decrease in Value  
 (C) Remain unchanged  
 (D) Increase in Value
89. Which one of the following is shown first when the assets are arranged in order of their liquidity?  
 (A) Investment  
 (B) Cash in hand  
 (C) Debtors  
 (D) None of the above
90. In capital market line every investment is --  
 (A) Finitely divisible.  
 (B) Infinitely divisible.  
 (C) Both A and B  
 (D) None of these
91. Investment would be of high score only if there is protection to --  
 (A) Real estate.  
 (B) Preferred stock.  
 (C) Government bonds  
 (D) Common stock
83. सभी नये इश्यूज जो सार्वजनिक रूप से जारी किये जाते हैं पंजीकृत होते हैं—  
 (A) सेबी  
 (B) नये इश्यू बाजार  
 (C) मेलोनी अधिनियम 1936  
 (D) सिक्यूरिटीज निवेशक संरक्षण अधिनियम 1970
84. कुल रिटर्न्स बराबर होता है—  
 (A) पूँजी लाभ+ मूल्य बदलाव  
 (B) प्राप्ति (ईल्ड)+ आय  
 (C) पूँजी लाभ -हानि  
 (D) प्राप्ति (ईल्ड)+मूल्य बदलाव
85. राजनैतिक स्थिरता एक बड़ा फैक्टर है जो संबंधित है—  
 (A) एक्सचेंज का खतरा।  
 (B) व्यवस्थित खतरा।  
 (C) व्यवस्थित खतरा।  
 (D) देश का खतरा।
86. निम्न मे से कौन सा बाजार की समग्र बाजार परिवर्तन शीलता संबंधित है—  
 (A) वित्तीय खतरा।  
 (B) व्याज दर खतरा।  
 (C) क्रय शक्ति खतरा।  
 (D) बाजार खतरा।
87. ज्यादा जोखिम वाले निवेश में शामिल है।  
 (A) म्यूचल फण्ड।  
 (B) शेयर।  
 (C) बैंक जमा।  
 (D) कोई नहीं।
88. यदि व्याज दर बढ़ती है तो कारपोरेट बांड की निधारित व्याज दर ——  
 (A) कम्पनी को वापस मिलेगी  
 (B) कीमत कम हो जायेगी।  
 (C) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।  
 (D) कीमत मे वृद्धि हो जायेगी।
89. निम्न मे से कौन प्रथम होगा जब एसटस को तरलता के आधार पर क्रम बद्ध किया जायेगा ?  
 (A) निवेश।  
 (B) हाथ में नकद।  
 (C) देनदार  
 (D) कोई नहीं
90. पूँजी बाजार लाइन प्रत्येक निवेश है—  
 (A) अंतिम रूप से विभाज्य।  
 (B) असीम रूप से विभाज्य।  
 (C) 'A' एवं 'B' दोनों।  
 (D) उपरोक्त से कोई नहीं।
91. निवेश ज्यादा होगा यदि सुरक्षा होगी।  
 (A) रियल स्टेट।  
 (B) पसंदीदा स्टाक।  
 (C) सरकारी बांड्स।  
 (D) सामान्य बांड्स।

92. Diversification reduces ---  
 (A) Interest rate risk.  
 (B) Market risk.  
 (C) Unique risk of loss to your over all portfolio.  
 (D) Inflation risk.
93. FII means--  
 (A) Foreign investment in India.  
 (B) Foreign Institutional investment  
 (C) A and B both are correct  
 (D) None of these
94. There are different types of foreign investments?  
 (A) Foreign direct investment.  
 (B) Foreign portfolio investment.  
 (C) Official and commercial loan.  
 (D) All of the above
95. upto what extent can Indian can invest in foreign securities?  
 (A) upto \$ 100,00.  
 (B) upto \$ 2.50000  
 (C) upto \$ 5,00000  
 (D) upto \$ 10.0000
96. Protection of investment means-  
 (A) Safeguard and enforcement of the rights.  
 (B) Safe guard the claim of investors  
 (C) Application of SEBI law and rules.  
 (D) All of the above
97. What are the provisions to protect investor's interest under the companies Act 2013?  
 (A) Class action suit U/s 245 of the companies Act 2013.  
 (B) Class action suit U/s 250 of the companies Act 2013.  
 (C) Class action suit U/s 260 of the companies Act 2013  
 (D) None of the above
98. What are the investor right?  
 (A) Get unique client code (U.C.C) allotted.  
 (B) Get copy of KYC and other documents executed.  
 (C) Get order of trading shares executed in his or her Unique client code only  
 (D) All of the above
99. How SEBI protect Interest of Investors ?  
 (A) Screen based trading system.  
 (B) Dematerialization of securities  
 (C) T+2 rolling settlement  
 (D) All of the above
100. How does the Government protect investors?  
 (A) By vigorously enforcing the securities laws to hold wrong doers accountable and deter future mis-conduct.  
 (B) Provide investors education and resource.  
 (C) A and B are correct  
 (D) None of these
92. विविधिकरण कम करता है—  
 (A) ब्याज दर का खतरा।  
 (B) बाजार खतरा।  
 (C) विविधीकरण अनूठे प्रकार से पूरे पोर्टफोलियो के खतरे को कम करता है।  
 (D) मुद्रा स्फृति का खतरा
93. एफ आई आई का अर्थ है—  
 (A) भारत में विदेशी निवेश।  
 (B) विदेशी संस्थागत निवेश।  
 (C) A एवं B दोनों सही।  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं।
94. विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेश हैं—  
 (A) विदेशी सीधे निवेश  
 (B) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश  
 (C) अधिकारिक एवं वाणिज्यक निवेश  
 (D) उपरोक्त सभी।
95. एक भारतीय विदेशी प्रतिभूतियों में अधिकतम कितना निवेश कर सकता है ?  
 (A) 1 लाख डालर।  
 (B) 2 लाख 50 हजार डालर।  
 (C) 5 लाख डालर।  
 (D) 10 लाख डालर।
96. निवेशक की सुरक्षा का अर्थ है—  
 (A) अधिकारों की सुरक्षा एवं लागू होना।  
 (B) निवेशक के दावों की सुरक्षा।  
 (C) सेबी का कानून एवं नियमों को लागू करना।  
 (D) उपरोक्त सभी।
97. निवेशक हित की सुरक्षा के लिये क्या प्रावधान हैं।  
 (A) वर्गीय कार्यवाही अन्तर्गत धारा 245 कम्पनीज अधिनियम 2013  
 (B) वर्गीय कार्यवाही अन्तर्गत धारा 250 कम्पनीज अधिनियम 2013  
 (C) वर्गीय कार्यवाही अन्तर्गत धारा 260 कम्पनीज अधिनियम 2013  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
98. निवेशक के क्या अधिकार हैं ?  
 (A) यूनिक क्लाइट कोड (यू.सी.सी.) प्राप्त करना।  
 (B) कॉर्ट-वाई.सी की प्राप्ति व अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना जो प्रयोग में लाये गये हो।  
 (C) शेयर्स के लेन-देन का अपने यू.सी.सी. कोड में प्राप्त करना।  
 (D) उपरोक्त सभी।
99. सेबी किस प्रकार के निवेशकों का हित सुरक्षित करती है।  
 (A) स्क्रीन आधारित लेनदेन का तरीका  
 (B) डिमैटरलाइजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रतिभूतियाँ।  
 (C) टी+ 2 रोलिंग सैटलमेन्ट  
 (D) उपरोक्त सभी।
100. सरकार किस प्रकार निवेशकों का हित संरक्षित करती है ?  
 (A) संघीस प्रतिभूति कानूनों को गलत करने वाले के विरुद्ध परे जोर से लागू किया जाता है और उत्तरदायी उसे बनाया जाता है।  
 (B) निवेशकों को शिक्षा एवं संसाधन उपलब्ध कराई जाती है।  
 (C) A एवं B दोनों सही है।  
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

\*\*\*\*\*

## **Rough Work / रफ कार्य**

**DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL ASKED TO DO SO**

1. Examinee should enter his / her roll number, subject and Question Booklet Series correctly in the O.M.R. sheet, the examinee will be responsible for the error he / she has made.
2. **This Question Booklet contains 100 questions, out of which only 75 Question are to be Answered by the examinee. Every question has 4 options and only one of them is correct. The answer which seems correct to you, darken that option number in your Answer Booklet (O.M.R ANSWER SHEET) completely with black or blue ball point pen. If any examinee will mark more than one answer of a particular question, then the first most option will be considered valid.**
3. Every question has same marks. Every question you attempt correctly, marks will be given according to that.
4. Every answer should be marked only on Answer Booklet (**O.M.R ANSWER SHEET**). Answer marked anywhere else other than the determined place will not be considered valid.
5. Please read all the instructions carefully before attempting anything on Answer Booklet (**O.M.R ANSWER SHEET**).
6. After completion of examination please hand over the Answer Booklet (**O.M.R ANSWER SHEET**) to the Examiner before leaving the examination room.
7. There is no negative marking.

**Note:** On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly in case there is an issue please ask the examiner to change the booklet of same series and get another one.